

LIL:CS:BM:REG30:2022-23

Date : 11.08.2022

BSE Limited Listing & Compliance Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001	The National Stock Exchange of India Limited Listing & Compliance Department Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051
Security Code : 517206	Symbol: LUMAXIND

Subject: Submission of the Newspaper Cuttings of publication of Un-Audited Financial Results for 1st Quarter ended June 30, 2022.

Ref: Board Meeting held on August 10, 2022.

Dear Sir/ Ma'am,

Please find enclosed herewith copies of the Newspaper Cuttings of publication of Un-Audited Financial Results for the 1st Quarter ended June 30, 2022, published today i.e. August 11, 2022 in the following Newspapers:

1. Financial Express (English- All Edition)
2. Jansatta (Hindi- Delhi Edition).

The Published copies of aforesaid results will also be made available on the website of the Company www.lumaxworld.in/lumaxindustries.

This is for your information and records

Thanking you,

Yours faithfully,

For LUMAX INDUSTRIES LIMITED



PANKAJ MAHENDRU
COMPANY SECRETARY
M.NO. A-28161



Encl: As stated above

ASSAM POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
A subsidiary of NTPC Ltd.

TENDER NOTICE No. 2/22

E-Tenders in two parts viz. 1) Techno Commercial Bids and 2) Price Bids, with validity up to 180 days are hereby invited from reputed, experienced (Electrical Contractors) Original Equipment Manufacturers (OEMs) having valid Electrical Contractor's License upto 11KV issued by competent authority for supply and erection of Fibre Reinforced Plastic (FRP) Ceiling from distribution transformers at various locations of APDC under 'APDC 2022-23'. Interested bidders may view the detailed Request for Proposal (RFP) on website www.assampowersdc.com as well as www.apdc.gov.in

Description	Date & Time
Tender document publishing date	16.08.2022 at 17:00 hrs.
Pre-bid Meeting	22.08.2022 at 13:30 hrs.
Bid Submission start date and time	26.08.2022 from 12:00 hrs.
Bid Submission end date and time	06.09.2022 till 17:00 hrs.
Technical Bid Opening Date & Time	08.09.2022 at 16:00 hrs.

Sd/- Chief General Manager (PP&D), APDC
Date: 10-08-2022

The Federal Bank Limited
6, Raghunath Nagar, Little's Vyas Campus, MG Road, Agra, Uttar Pradesh, 282002

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER
Regd. Office: Bangalore, Kerala

NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are over due for redemption and which have not been regularized for far in spite of repeated notices, will be put for sale in the branch on or after 26.08.2022 as shown below:

BRANCH/VENUE:	NAME & ACCOUNT NUMBER	Name	Account No.
Federal Bank, 6, Raghunath Nagar, Little Vyas Campus, MG Road, Agra, Uttar Pradesh, 282002 Email: agr@federalbank.co.in	NAME & ACCOUNT NUMBER	Harpal Singh	1212640002930
		Sima	1212640004641
		Sima	1212640004288
		Mahesh Murdhar Ramawat	1212640005372
		Jahid Khan	1212640002846

Date: 10-08-2022, Place: Agra

Central Bank of India
पुणे ऑफिस, केंद्र, कर्नाटक, कावेरी, न.दि. 110003

PUBLIC NOTICE

Central Bank of India, Delhi invited tenders from Authorized Cdn Dealers of Haryana, U.P. (Ghaziabad & Noida) Delhi & Rajasthan for sale of Bank's DBRL Guns. More Details At: www.centralbankofindia.co.in

Last Date: 24.08.2022
Assistant General Manager

VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LTD
Unit 203 204, 2nd Floor, "A" Wing, Navhar Estate, Zakaria Bunder Road, Sewri (West), Mumbai 400015. Maharashtra.
CIN: U65222MH2005PLC227250

Demand Notice Under Section 13(2) of Securitization Act of 2002

Whereas, Vastu Housing Finance Corporation Ltd through its head office Mumbai, Notice issued to the borrowing borrower's (whose ever applicable) are advised to make the payments of outstanding principal and interest of credit facilities obtained by them from the VHFCL and said facilities have been found to be Non Performing Assets. The notices were issued to them under section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 on their last known addresses however the same have remained unreturned and as such they are hereby informed by way of public notice about the same.

Name of Borrower/Co-borrower and Loan Ac. No.	Date and Amount of Demand Notice Under Sec. 13(2)	Description of Mortgaged property
RINKU SHARMA (Applicant), ALKA DEVI (Co Applicant), H/000000071058	19-07-22 Rs.1651208/- as on 05-July-22 with further interest and charges thereon	Part of Plot No. 122, Khairia No. 185, Ganga Vihar Colony, Farangana, Loni, Tehsil, District Ghaziabad, Uttar Pradesh-201309, North of M. Han Dut Deyan, South - Road 20 ft. East - Property of Mr. San Sharma, West - House of Mr. Mahendra Singh Nigri
SURINDER NAGPAL (Applicant), SHASHI NAGPAL (Co Applicant), H/00000001925	19-07-22 Rs.247434/- as on 05-July-22 with further interest and charges thereon	Plot no-112 Plot No-137, Second Floor/10th Right/ Right Road No. 35, Kila No-15/Vishnu Nagar, Jalandhar Capital Territory of Delhi, New Delhi-110018, North- Road 15Wide, South - Portion of Above Plot, East- Road 20Wide, West- Other plot

The steps are being taken for substituted service of notice. The above borrowers, co-borrowers and/or their borrowers (whose ever applicable) are advised to make the payments of outstanding principal and interest of the date of publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days of the date of this notice as per the provision of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. Please be informed that the said notice is also under section 13(1) informing the borrower/guarantors/mortgagors that the said mortgaged property should not be sold/leased/transferred.

Authorized Officer:
Place: DELHI
VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LTD

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
आंध्र प्रदेश Andhra Corporation

NARNAUL & BAWAL BRANCHES

(RULE 81) SYMBOLIC POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of UNION BANK OF INDIA, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 81 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice to below mentioned Borrower(s) on the date mentioned against account and stated hereafter calling upon the Borrower(s) to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower(s) / Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken **SYMBOLIC POSSESSION** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the date mentioned against account.

The Borrower(s) / Guarantor(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the UNION BANK OF INDIA, for an amount and interest thereon.

The Borrower's / Guarantor's attention is invited to provisions of Sub-Section (1) of Section 13 of the Act, in respect of time available to the Borrower(s) to redeem the secured assets.

Name of the Borrower/ Guarantor	Date of Demand Notice	Date of Symbolic Possession	Amounts Due on Date of Demand Notice	Rs. 10,40,053.68 and interest thereon.	Description of the Movable/Immovable Property(ies)
Shri Dinesh Kumar	17.03.2021	06.08.2022	Rs. 10,40,053.68 and interest thereon.	Rs. 10,40,053.68 and interest thereon.	All that part of the property consisting of Plot No. 72, Mahala Gashwara, Dakhmesh Nagar, Sub-District Narnaul and District Mahendragarh, Haryana. Bounded:- On the North by: House of Sh. Virender Singh Yadav; On the South by: House of Sh. Harbhajan Singh; On the East by: House of Sh. Virender Singh Yadav; On the West by: Main Road.
(1) M/s Subay Auto Electric Works, Prop. - Sh. Subay Singh and (2) Sri Banarsi Devi W/o Sh. Hoshnar Singh	15.06.2021	06.08.2022	Rs. 4,89,309.05	Rs. 4,89,309.05	All that part of the Property consisting of and interest thereon. Single Storey Commercial Shop Complex, Y.P.S. and Co-shared part of Khatwa No. 744, Khatwa No. 1052 to 1055 & 3267/1 with a total land of 26-16 Biswas with her share 5/11th which works out to be 0.90 Biswas or 27.32 Sq. Yds. is situated on Main Singhara / Hero Honda Chowk - Nizampur Road in the name of Smt. Banarsi Devi W/o Sh. Hoshnar Singh vide Sale Deed No. 1226 Dated 30.10.1995. Bounded as:- North: Shop of Owners Son Sh. Sive Singh; South: Plot of Sh. Kahan Lal; East: Property of Sh. Aban Prakash & West: Main Narnaul-Nizampur Road.
Shri Jhander Kumar S/o Shri Bhagat Singh, Shri Birender Singh S/o Shri Bhagat Singh	20.04.2021	05.08.2022	Rs. 4,91,613.81	Rs. 4,91,613.81	All that part of the Property consisting of and interest thereon. Residential House at Bhoop Vihar, comprises in Khatwa No. 531, Khatwa No. 569, Muski 86, Kila No. 25/13 Tadacl 3/16 share of 16M, (Share) measuring 3M or 100 Sq. Yards, Waka Owana, Majra Dhanuara, Tehsil and Distt. Rawat.
Boundaries of Property:- East: Plot of Ramchandra Khanna; West: Other Plot North: 1 Feet Road; South: Main Narnaul.	15.06.2021	05.08.2022	Rs. 30,65,354.09	Rs. 30,65,354.09	All that part of the Property consisting of and interest thereon. Commercial Shop comprised in Commercial Shop complex situated at Khatwa No. 73, Khatwa No. 75, Rect. No. 33, Kila No. 19(3/4) & Khatwa No. 74, Khatwa No. 76, Muski No. 33, Kila No. 131(2/3-10), 19(8-9) & Khatwa No. 75, Khatwa No. 77, Muski No. 33, Kila No. 6/11(7-9), 7/12(10-15), 5/22(2-13), 15/2(1-16), Banjar Chokri, Tehsil Bawal, Distt. Rawat - 125501.

Date: 10/08/2022

PEE CEE COSMA SOPE LTD.
CIN: U24241UP1986PLC003044

Regd. Office: Padmalpala, Hall No. H-142, First Floor, Plot No. 5, Sector-16B Vasant Vihar, New Delhi-110021 (U.P.). Tel: 0062-2927331/322 E-mail: peeccecosma@peeccecosma.com Website: www.peeccecosma.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2022

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended		Year Ended
		30.06.2022 (UNAUDITED)	30.06.2021 (AUDITED)	
1.	Total Income from Operations	3333.48	2553.39	9330.39
2.	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	19.21	18.76	106.64
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	19.21	18.76	106.64
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	12.02	11.05	78.20
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	12.02	11.05	78.20
6.	Paid-up Equity Share Capital (face value of Rs. 10/- each)	256.63	256.63	256.63
7.	Earnings per share (Quarterly not annualized)	0.50	0.40	3.00
	Basic (Rs. per share)	0.50	0.40	3.00
	Diluted (Rs.)	0.50	0.40	3.00

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for Quarter ended June 30, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of the Quarterly Results are available on the website of Stock Exchange (www.bseindia.com) and the Company's website (www.peeccecosma.com). 2. The above Results were Reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their Meeting held on August 10, 2022. 3. An Independent Auditor Review Report as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed on detailed Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022 filed with the Stock Exchanges. 4. Figures for the previous period have been regrouped wherever necessary to conform to the current period's classification.

For & on behalf of the Board
MAYANK JAIN
(Executive Chairman)
DIN: 00112947

PLACE: AGRA
DATED: 10.08.2022

PEE CEE COSMA SOPE LIMITED
MAYANK JAIN
(Executive Chairman)
DIN: 00112947

A TRUSTED NAME FOR MORE THAN 70 YEARS

GIVING CONTINUOUSLY TRUSTWORTHY RESULTS

RAMA VISION LIMITED
REGD. OFFICE: Ward No. 3, Bareilly Road, KICHAH, DISTT. UDHAM SINGH NAGAR (UTTARAKHAND) 263148. Tel: 0994-264833 Website: www.ramavisionltd.com e-mail: ramavisionltd@ramavisionltd.com CIN: L32203UP2015PLC015645

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED ON 30TH JUNE 2022

(Rs. in Lakh except EPS)

Sl. No.	Particulars	QUARTER ENDING		
		30.06.2022 (Reviewed)	31.03.2022 (Audited)	30.06.2021 (Reviewed)
1.	Total Income from operations (net)	1948.72	6179.95	1231.65
2.	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	88.09	194.01	26.30
3.	Net Profit for the period (before tax and after exceptional items)	88.09	194.01	26.30
4.	Net Profit for the period (after tax and exceptional items)	65.92	146.40	19.89
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	65.70	142.68	19.85
6.	Equity Share Capital	1,002.63	1,002.63	1,002.63
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	935.17	-
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	a) Basic:	0.66	1.48	0.20
	b) Diluted:	0.66	1.46	0.20

Note: 1. The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 10th August, 2022. 2. The above audited financial results prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (IND-AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standard) Accounting Rules, 2016. 3. The company mainly operates only in one segment namely "Trading Activities" and hence segment details are not required to be published. 4. The figures for quarter ended 31st March 2022 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year 2021-22 and the reviewed figures up to the third quarter ended 31.12.2021 of the financial year 2021-22. 5. Figures for the previous period and / or year have been regrouped or rearranged wherever considered necessary. 6. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Company's website www.ramavisionltd.com and on BSE website www.bseindia.com.

By order of the Board
Sd/-
Chairman & MD Director
Date: 10th August, 2022
DIN: 00652215

MAGNUM VENTURES LIMITED
CIN: L21093DL1980PLC010492

Regd. Office: HNO-MNO1, Hub and Oak, E-14, Lower Ground Floor, Defence Colony, New Delhi 110024 | Tel: +91-11-42420015
E-mail: magnumventures@gmail.com | Website: www.magnumventures.in

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

(Amount in INR)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30/06/2022 (Un-Audited)	31/03/2022 (Audited)	30/06/2021 (Un-Audited)	
1.	Total Income from operations (net)	1,72,746	11,425.13	5,035.00	33,160.13
2.	Net Profit (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	192.08	343.13	-71.00	788.13
3.	Net Profit (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,458.57	342.74	-71.00	468.07
4.	Net Profit (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,458.57	343.43	-71.00	514.76
5.	Other Comprehensive Income (net of tax)	0.00	40.64	0.00	40.64
6.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	4,458.57	430.07	-71.00	555.40
7.	Equity Share Capital	3,760.19	3,760.19	3,760.19	3,760.19
8.	Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	a) Basic:	11.86	1.14	-0.19	1.48
	b) Diluted:	11.86	1.14	-0.19	1.48

Note: 1. The above financial results for the quarter ended June 30, 2022 were reviewed by Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on August 10, 2022 and also taken on record by the Statutory Auditors. 2. The above is an extract of the detailed format of the financial results for the quarter ended June 30, 2022 filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of the financial results for the quarter ended June 30, 2022 is available on the website of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website www.magnumventures.in. 3. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Regulations, 2015 (IND AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. 4. No investors complaint was pending at the beginning of the quarter. During the quarter no complaint was received. No Complaint was pending as on June 30, 2022. 5. The figures for the previous period have been regrouped/rearranged wherever necessary.

Date: 10.08.2022
Place: Ghaziabad
Sd/-
Abhey Jain
(Director)

SMART FINSEC LIMITED
CIN: L74890DL1989PLC035562

Regd. Office: F-02, 4th Floor, TDI Mall, Vashi Enclave, Rajapur Garden, New Delhi-110027
Phone: 011-25167171 | Website: www.smartfinsec.com Email: smartfinsec@gmail.com

Unaudited Standalone Financial Results for the quarter & 3 months ended on 30th June, 2022

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30.06.2022 (Unaudited)	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Unaudited)	
1.	Total Income from operations (net)	659.61	547.03	1,165.63	5,081.99
2.	Profit / (loss) for the period before tax and exceptional items	24.73	146.02	(8.36)	454.95
3.	Profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items (net annualized)	24.73	146.02	(8.36)	454.95
4.	Net Profit / (loss) for the period after tax	17.78	114.27	-25.57	345.64
5.	Total comprehensive income for the period	17.78	114.27	-25.57	345.64
6.	Paid-up equity share capital	300.00	300.00	300.00	300.00
7.	Earnings per share (Face value per share Rs. 1/-each)				
	a) Basic (Rs. per share)	0.06	0.38	(0.09)	1.15
	b) Diluted (Rs. per share)	0.06	0.38	(0.09)	1.15

Note: 1. The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on August 10, 2022. 2. The above is an extract of the detailed format of quarterly / year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of the quarterly / year to date Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Smart Finsec Ltd. Sd/-
Arun Kherra
Managing Director
DIN: 0055994

Place: New Delhi
Date: 10th August, 2022

WONDER FIBROFATS LIMITED
Regd. Office: 45, Ground Floor, Ohla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020
CIN: L31900DL2009PLC195174
Website: www.wonderfibrofats.com, Ph. No: 011-66089352

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2022

(Rupees in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended
		Unaudited	Audited	Unaudited	
1.	Total Income from Operations	10,439.59	39,836.42	7,692.30	
2.	Net Profit for the period before tax (before exceptional and extraordinary items)	210.88	990.46	(5.54)	
3.	Net Profit for the period before tax (after exceptional and extraordinary items)	210.88	990.46	(5.54)	
4.	Net profit for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	149.31	727.73	(8.11)	
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	149.31	727.73	(8.11)	
6.	Paid Up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share)	1,340.08	1,340.08	837.55	
7.	Other Equity (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	4,014.35	-	
8.	Earnings per share (face value of Rs. 10/- per share) (not annualized)				
	Basic earnings per share (in rupees)	1.11	5.43	(0.10)	
	Diluted earnings per share (in rupees)	1.11	5.43	(0.10)	

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of the Financial Results is available on the Company's website (www.wonderfibrofats.com) and on Stock Exchanges website (www.bseindia.com and www.nseindia.com). 2. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 10, 2022. The Limited Review for the quarter ended 30 June, 2022, has been carried out by the Statutory Auditor, as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015. 3. Figures of the previous periods have been regrouped/rearranged, wherever necessary.

On behalf of the Board
For Wonder Fibrofats Limited
Sd/-
Harsh Kumar Anand
Chairman & Managing Director

Place: New Delhi
Date: 10/Aug/2022

LUMAX INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: 2nd Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Nagla Naya, New Delhi-110046
Website: www.lumaxoverltd.com, Email: lumaxoverltd@lumaxoverltd.com, Tel: +91 11 49857832
Email: lumaxshare@lumaxoverltd.com, CIN: L48994DL1981PLC012804

EXTRACT OF CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2022

(Rs. in Lakhs unless otherwise stated)

PARTICULARS	Quarter Ended		
	30 June 2022 (Unaudited)	31 March 2022 (Audited)	30 June 2021 (Unaudited)
Total Revenue from operations	51,193.53	175,131.10	31,400.07
Net Profit/(Loss) from ordinary activities before tax (before exceptional item)	2,350.96	6,328.70	(1,285.41)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional item)	2,747.56	5,281.93	(1,355.45)
Net Profit/(Loss) for the period after tax	1,982.12	4,072.47	(904.49)
Total comprehensive income/(loss)	1,878.81	3,785.45	(931.33)
Equity Share Capital	934.77	934.77	934.77
Earnings per share of (₹ 10 each) (not annualized)			
Basic & Diluted (in ₹)	21.20	43.57	(10.60)

Key information on Standalone Financial Results is as follows:

PARTICULARS	Quarter Ended		
	30 June 2022 (Unaudited)	31 March 2022 (Audited)	30 June 2021 (Unaudited)
Total Revenue from operations	51,193.53	175,131.10	31,400.07
Net Profit/(Loss) from ordinary activities before tax (before exceptional item)	2,350.96	6,328.70	(1,285.41)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional item)	2,293.06	4,614.75	(1,285.41)
Total comprehensive income / (loss)	1,409.86	3,211.23	(895.54)

Note: 1. The above results for the quarter ended 30 June 2022 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 10 August 2022. The results have been reviewed by the Statutory Auditor of the Company. 2. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter

